

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.54	5.30	5.21	296218030	25280807	30959727	32781616
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.71	1.77	1.63	185733719	17139102	17946468	19293299
1.1.1 आउटराइट	10.56	1.03	1.05	0.84	16056018	1524120	1611829	1274228
1.1.2 रेपो	4.72	0.44	0.51	0.55	77286611	7150905	7894091	8664018
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.23	0.21	0.24	92391091	8464077	8440549	9355053
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.71	3.39	3.48	100639565	7417106	11968143	12739681
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.12	0.14	0.10	9844746	724598	1045117	748636
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	246.68	254.88	277.67	201387682	15970680	19012360	18863902
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	245.48	253.73	276.46	181153129	14531533	16983278	16624624
१.२ अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.19	1.15	1.21	20234553	1439147	2029082	2239279
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	161225.51	200519.84	212335.07	79781976	6480748	6957478	7319321
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.31	0.30	0.31	190	13	16	16
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2481.39	2841.94	2705.04	554034	28605	48247	42355
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4902.84	4481.05	4821.90	7139110	593177	606356	631411
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1479.29	1325.97	1628.20	1670223	132397	134188	143081
2.5 एनईएफटी	96198.05	8006.14	7920.52	8500.14	44361464	3662264	3764742	3993960
2.6 यूपीआई @	1858660.25	144355.54	183950.06	194679.48	26056955	2064292	2403931	2508498
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.40	1.18	1.59	185	15	21	31
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1734.76	1891.36	1912.72	2208583	175789	210754	217899
3.1 भीम आधार पे @	230.08	19.25	18.27	19.95	6907	575	615	619
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1588.11	1728.39	1753.66	2199327	175014	209956	217102
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	127.40	144.70	139.11	2349	200	183	179
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5294.35	5672.82	5982.42	2605110	217435	218552	231987
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3837.80	4587.10	4861.81	2109197	172670	183088	193849
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1970.94	2338.70	2432.75	795022	62284	67468	70380
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1866.86	2248.41	2429.06	1314175	110386	115620	123469
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1456.56	1085.72	1120.61	495914	44765	35463	38138
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1068.58	812.90	832.19	332556	28600	23079	23921
4.2.2 अन्य \$	4140.06	387.98	272.82	288.42	163358	16165	12384	14216
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5356.71	6868.39	7124.06	216751	16327	20740	20758
5.1 वालेट	52898.40	4009.69	5338.82	5431.45	154066	11386	17308	16915
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1347.01	1529.57	1692.61	62686	4941	3432	3842
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	713.97	595.05	660.66	11512	940	888	908
5.2.2 अन्य \$	9115.54	633.05	934.51	1031.95	51174	4001	2544	2935
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	531.00	447.43	494.59	7113350	610685	550176	607504
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	531.00	447.43	494.59	7113350	610685	550176	607504
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	174142.33	215399.84	227848.86	91925771	7500984	7957700	8397469
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	174389.01	215654.72	228126.54	293313453	23471665	26970060	27261371
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	173858.01	215207.29	227631.95	286200103	22860979	26419884	26653867

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जुला.	जून	जुला.		जुला.	जून	जुला.
		1	2	3		4	5	6
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	138523.69	170640.11	180368.04	39206221	3141241	3467488	3658470
1.1 इंस्ट्राबैंक \$	110801.96	8897.45	9560.57	10205.70	7207439	584669	611428	634819
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	129626.24	161079.54	170162.34	31998782	2556572	2856060	3023651
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	4305.75	3635.82	3987.57	131858133	10958678	12824960	12803198
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	1227.41	839.90	935.66	69086996	5820942	6918867	6734105
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	3078.34	2795.92	3051.90	62771136	5137737	5906093	6069093
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	5069.38	4382.08	4472.41	3063077	250318	229907	232955
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	8.54	6.28	6.63	5084	433	345	362
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	5040.14	4358.58	4447.66	3046987	248968	228735	231722
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	20.70	17.22	18.13	11005	917	827	871
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.29	0.14	0.13	37	3	1	1
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.27	0.11	0.11	35	3	1	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.02	0.02	0.02	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	944.29	944.62	996.95	296622	23498	25646	25574
5.1 एईपीएस @	11640.55	944.29	944.62	996.95	296622	23498	25646	25574

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025		
		जुला.	जून	जुला.	
		1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना					
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)		11006.97	10677.71	11163.78	11243.50
1.1 क्रेडिट कार्ड		1098.85	1045.68	1111.97	1116.23
1.2 डेबिट कार्ड		9908.12	9632.02	10051.80	10127.27
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)		13401.35	15211.55	13520.65	13746.53
2.1 वॉलेट @		8678.44	11419.62	8681.92	8870.16
2.2 कार्ड @		4722.91	3791.93	4838.73	4876.37
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)		2.56	2.55	2.51	2.49
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम s		2.20	2.21	2.15	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम s		0.36	0.34	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @		14.82	14.78	14.59	14.67
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या		110.98	89.72	117.91	119.21
6 भारत क्यूआर @		67.18	61.87	67.21	66.65
7 यूपीआई क्यूआर *		6579.30	5851.14	6782.51	6881.22

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल पररेल वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन, फास्ट टैग लेनदेन, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समामोदन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।